



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2694]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 2694]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3392(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग—53) के 141.028 कि.मी. से 177.750 कि.मी. तक के भूखण्ड (आरंग—सरायपाली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 जैसा लागू) के कि.मी. 141.028 कि.मी. से 171.750 कि.मी. बाईपासो सहित (आरंग-सरायपाली सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क्र.	जिले का नाम	तालुक / तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वे / खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महासमुन्द	पिथौरा	(1) लहरौद	768 तु.	शासकीय	तालाब पार	325
				770 तु.	शासकीय	रास्ता	328
				838 / 1 तु.	निजी	पड़त	200
				839 / 6 तु.	निजी	पड़त	144
				839 / 7 तु.	निजी	पड़त	190
				905	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	22
				908 / 3	निजी	पड़त	100
				908 / 4	निजी	पड़त	100
				910 / 1 तु.	निजी	धनहा सिंचित	130
			(2) राजासवैया खुर्द	777 / 1	निजी	कृषि योग्य भूमि	1420
			(3) लोहरिनडोंगरी	1	शासकीय	पड़त	1200
				2 / 1 तु.	निजी	धनहा सिंचित	600
				2 / 3 तु.	निजी	धनहा असिंचित	100
				2 / 4	निजी	धनहा असिंचित	100
				3 तु.	निजी	धनहा असिंचित	50
				6 / 45 तु.	निजी	धनहा असिंचित	30

[फा.सं. भाराराप्रा/भू.अ./11013/01/नाटिफ-सी.जी./रायपुर]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3392(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening/Four /six laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.-06 (New NH-53), on the stretch of land from km 141.028 to km 177.750 (Aurang-Saraipali Section) in District Mahasamund in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Pithora, District "Mahasamund", Chhattisgarh, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 141.028 to Km 171.750 (Aurang - Saraipali Section) of the National Highway No. 06 (New NH-53) in the State of Chhattisgarh.

Serial Number	Name of the district	Name of The Taluk/ Tehsil	Name of the Village	Survey/Khasra Number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasamund	Pithora	(1) Lahroud	768 Tu	Government	Talab Par	325
				770 Tu	Government	Road	328
				838 /1 Tu	Private	Padat	200
				839 /6 Tu	Private	Padat	144
				839 /7 Tu	Private	Padat	190
				905	Government	Chhote Jhad ke Jungle	22
				908 /3	Private	Padat	100
				908 /4	Private	Padat	100
				910 /1 Tu	Private	Dhanha irrigated	130
			(2) Rajasewaiya Khurd	777 /1	Private	Land under Cultivation	1420
			(3) Lohrindongari	1	Government	Padat	1200
				2 /1 Tu	Private	Dhanha irrigated	600
				2 /3 Tu	Private	Dhanha unirrigated	100
				2 /4	Private	Dhanha unirrigated	100
				3 Tu	Private	Dhanha unirrigated	50
				6 /45 Tu	Private	Dhanha unirrigated	30

[F. No. NHAI/LA/11013/01/Notif.-C.G./Raipur]

MAYA PRAKASH, Director